



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 29 फरवरी, 2024

फाल्गुन 10, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

कृषि अनुभाग-1

संख्या 222/12-1-2024-2178-92 टी0सी0

लखनऊ, 29 फरवरी, 2024

अधिसूचना

सा0प0नि0-12

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, "उत्तर प्रदेश कृषि (समूह 'क' पद) सेवा नियमावली, 1992" को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती है :-

"उत्तर प्रदेश कृषि (समूह 'क' पद सेवा (षष्ठम् संशोधन नियमावली, 2024)"

1-(1) यह नियमावली "उत्तर प्रदेश कृषि (समूह 'क' पद) सेवा (षष्ठम् संशोधन) संक्षिप्त नाम और नियमावली, 2024" कही जायेगी। प्रारम्भ

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2-उत्तर प्रदेश कृषि (समूह 'क' पद) सेवा नियमावली, 1992 के नियम 5 में, नीचे स्तम्भ-1 नियम 5 का में दिये गये विद्यमान उप-नियम (2) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उप-नियम (2) रख दिया संशोधन जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1**विद्यमान उप-नियम**

(2) मौलिक रूप से नियुक्त संयुक्त कृषि निदेशक सांख्यिकी में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष की पहली जुलाई को इस रूप में कम से कम चार वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा।

स्तम्भ-2**एतद्वारा प्रतिस्थापित उप-नियम**

(2) मौलिक रूप से नियुक्त संयुक्त निदेशक कृषि, सांख्यिकी में से, जिन्होंने भर्ती वर्ष की पहली जुलाई को इस रूप में अन्यून चार वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा:

परन्तु यह कि यदि पदोन्नति हेतु विहित 04 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले अधिकारी उपलब्ध न हो तो पात्रता, क्षेत्र को मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे संयुक्त निदेशक कृषि, सांख्यिकी जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 02 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, को सम्मिलित कर विस्तारित किया जा सकता है।

आज्ञा से,
डा० देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) or Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 222/XII-1-2024-2178-92 T.C., dated February 29, 2024 :

No. 222/XII-1-2024-2178-92 T.C.

Dated Lucknow, February 29, 2024

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the "Uttar Pradesh Agriculture (Group 'A' Posts) Service Rules, 1992."

**"THE UTTAR PRADESH AGRICULTURE (GROUP 'A' POSTS) SERVICE
(SIXTH AMENDMENT) RULES, 2024"**

Short title and
commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Agriculture (Group 'A' Posts) Service (Sixth Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force at once.

Amendment of
Rule 5

2. In the Uttar Pradesh Agriculture (Group 'A' Posts) Service Rules, 1992, In Rule 5 for existing sub-rule (2) set out in Column-1 below, the sub-rule (2) as set out Column-2 shall be *substituted*, namely :-

COLUMN-1*Existing sub-rule*

(2) Permanently appointed Joint Director, Agriculture statistics who has completed not less than four years service as such on the 1st July of the year of recruitment, promotion through the Departmental Selection Committee.

COLUMN-2*Sub-rule as hereby substituted*

(2) By promotion through Departmental Selection Committee from amongst substantively appointed Joint Director, Agriculture statistics who have completed not less than four years service as such, on the first July of the year of recruitment:

Provided that if such officers, who have completed the prescribed 04 years of service are not available for promotion, the field of eligibility may be expanded to include such Substantively appointed Joint Directors, Agriculture statistics, who have completed 02 years service as such on the first day of the recruitment year.

By order,
DR. DEVESH CHATURVEDI,
Apar Mukhya Sachiv.